



August 22, 2019

The Manager, Listing Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai 400 001. Telno.: 22721233 Fax No.: 22723719/ 22723121/ 22722037 BSE Scrip Code: 540776	The Manager, Listing Department, The National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot C/1, G Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051. Tel No.: 2659 8235 Fax No.: 26598237/ 26598238 NSE Symbol: SPAISA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation

With reference to the Rights issue of the Company, we would like to inform you that the advertisement of Basis of Allotment in regard to the Rights issue in terms of Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2018 has been published today in the following newspapers :

1. The Financial Express (all editions)
2. Jansatta (all editions)
3. Tarun Bharat (all editions)

The same have been enclosed herewith.

Kindly take the same on your record and oblige.

Thanking you,
Yours faithfully.

For 5paisa Capital Limited

**Roshan Dave
Company Secretary
Place: Mumbai**



Encl.: As above

5paisa Capital Limited

Corporate Identity Number: U67190MH2007PLC289249

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No. B-23, MIDC, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane – 400604

E-mail: support@5paisa.com • Website: www.5paisa.com

PSBs to begin second brainstorming exercise from today to bolster ops

FE BUREAU
New Delhi, August 21

STATE-RUN BANKS WILL embark on the next round of a brainstorming exercise for two days from Thursday to further bolster processes and ease the flow of credit while helping the nation become a \$5-trillion economy in the next five years. While the first round of this exercise involved seeking inputs from branch-level officers, the second leg of this campaign from Thursday will involve inter-bank sharing of ideas. The inputs received in the first round will now be shared at the state levels of various banks, as per the direction of the finance ministry's department of financial services. The move is part of the government's drive to promote a

"bottom-up" approach to herald banking reforms. While overall credit growth is still at about 12%, the flow of loans to small/medium businesses has remained weak and export credit growth has contracted. To reverse this sluggishness, public-sector banks (PSBs) have been nudged by the government to align banking with national priorities such as enhancing credit flow to small and medium businesses, empowering SC/ST entrepreneurs, improving farmers' income, facilitating digital transactions and the focus on the green economy. PSU banks are hoping that a pick-up in demand would help revive credit demand too. PSBs will hold meetings at 30 places, mostly in the capitals of various states. Middle-level officials will participate in it. They

will deliberate on the issues and concerns being faced by various banks along with performance review, sources said, adding that they will also come up with ideas and suggestions for preparing a road map for the future growth of banking sector. Nine thematic papers by domain experts on various challenges will be discussed during the meet so that reforms measures can be suggested on these critical issues. These themes include increasing digital payments, credit for India's MSMEs, agriculture credit, export credit in India and need to establish financial grid.

MRVL
RETAIL VENTURES LTD

THE MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED
CIN: L52390MH2011PLC213349

Registered Office: Plot No. E-132, M.I.D.C., Tarapur Industrial Area, Boisar, Dist. Palghar - 401506
Corporate Office: 006-008, Peninsula Centre, Dr. S. S. Rao Road, Parel, Mumbai - 400012
Tel. No.: +91-22-4353977 • Email: cs@mandhanaretail.com • Website: www.mandhanaretail.com

ERRATA TO THE ANNUAL REPORT 2018-19

With reference to the Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 (Annual Report), on account of an inadvertent typographical error, the following part of the Annual Report shall by this erratum, be amended, corrected and substituted to read as mentioned herein instead of as printed in the Annual Report:
On the first line at paragraph no.3 on page no. 17 of the Annual Report, the word "profit" be replaced with and read as "revenue" thereby making the statement as "5.75% of the revenue".
All other information as stated in the Annual Report will remain unchanged. The revised Annual Report is available on the website Company: www.mandhanaretail.com.

For THE MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED

Mumbai
20th August, 2019

Sd/-
SANGEETA MANDHANA
MANAGING DIRECTOR
DIN: 06934972

LIC MUTUAL FUND

LIC Mutual Fund Asset Management Limited
(Investment Managers to LIC Mutual Fund)
CIN No: U67190MH1994PLC077858

Registered Office: Industrial Assurance Bldg; 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020.
Tel.No.: 022-68016000, Toll Free No.: 1800 256 5678, Fax No.: 022-22835606
Email: service@licmf.com • Website: www.licmf.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM No. 20 of 2019-2020

NOTICE is hereby given that LIC Mutual Fund Trustee Private Limited, the Trustee to LIC Mutual Fund, has approved the following:-
Declaration of dividend under below Schemes of LIC Mutual Fund:-

Name of the Scheme	Face Value (₹ per unit)	Dividend Rate (₹ per unit)*	Record Date**	NAV as on 20/08/2019 (₹ per unit)
LIC MF Banking & PSU Debt Fund - Direct Monthly Dividend Plan		0.06		10.4865
LIC MF Banking & PSU Debt Fund - Regular Monthly Dividend Plan		0.06		10.3673
LIC MF Debt Hybrid Fund - Direct Monthly Dividend Plan		0.06		10.7123
LIC MF Debt Hybrid Fund - Regular Monthly Dividend Plan	10.00	0.06	27 th August, 2019	10.8557
LIC MF Arbitrage Fund - Direct Monthly Dividend Plan		0.06		10.2946
LIC MF Arbitrage Fund - Regular Monthly Dividend Plan		0.06		10.3166
LIC MF Equity Hybrid Fund - Direct Dividend Plan		0.11		14.2951
LIC MF Equity Hybrid Fund - Regular Dividend Plan		0.11		13.3206

*The payment of dividend is subject to the deduction of applicable Dividend Distribution Tax.
**Or the immediate next Business Day, if that day is not a Business Day.
Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Option of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy.
Income distribution/Dividend, subject to the availability of distributable surplus, will be paid to those Unit holders whose names appear in the Register of Unit holders/Statement of Beneficial owners (as applicable) under the Dividend Option of the aforesaid schemes as on the Record Date.
In respect of applications for an amount equal to or more than ₹ 2 lakh, the Applicable NAV shall be based on realization of funds as per the provisions of SEBI Circular CIR/IMD/DF/21/2012 dated 13th September, 2012 on uniform cut-off timings for applicability of NAV.
With regard to Unit holders under the Dividend Option of the scheme, who have opted for Dividend reinvestment facility, the dividend due will be reinvested by allotting Units for the income distribution/Dividend amount at the prevailing ex-dividend NAV per Unit on the Record Date.
Intimation of any change of address/bank details should be immediately forwarded to the Investor Service Centers of LIC Mutual Fund/Depository Participant(s) (for units held in demat form).

For LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED
Date : 21/08/2019
Place: Mumbai
Sd/-
Authorised Signatory
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

HINDCON CHEMICALS LIMITED
CIN: L24117WB1985PLC087800

Registered Office: 62B, Braunfeld Row 1st Floor Kolkata-700027
Phone No.: 033-2449083/5/38. Fax No.: 033-24490849
Website: www.hindcon.com, e-mail: contactus@hindcon.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company for the financial year 2018-19 will be held on **Thursday, the 12th September, 2019 at 4:00 P.M. at Hindustan Club Limited, Conference Hall, 4/1, Sarat Bose Road, Kolkata-700020** to transact the business as set out in the notice of AGM dated 24th May, 2019 which has been dispatched to the Shareholders of the Company along with Annual Report by permitted mode on 20th August, 2019.

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, the Company is providing e-voting facilities to the Members of the Company holding shares either in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. 5th September, 2019 to cast their vote electronically through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

- The Remote e-voting period shall commence on **Monday, 9th September, 2019 at 9:00 a.m. (IST)** and shall end on **Wednesday, 11th September, 2019 at 5:00 p.m. (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled thereafter and voting through electronic mode shall not be allowed beyond said date and time.
 - Cut-off date: 5th September, 2019.
 - Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 5th September, 2019, may obtain the login-ID and sequence number by sending a request to **Linkintime India Private Limited**, the Registrar & Share Transfer Agents (RTA) or to the Company at **contactus@hindcon.com**.
 - However, if the member is already registered with CDSL for e-voting then such member can use his/her existing User ID and password for casting his/her vote.
 - The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by Remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
 - Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.
 - A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
 - Notice of the AGM and the Annual Report is available on the company's website i.e. **www.hindcon.com** and the website of **www.cdslindia.com** and on the websites of NSE (**www.nseindia.com**).
 - The Company has appointed **Mr. Santosh Kumar Tibrewala**, Practising Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize both the electronic voting process and voting process at the venue of AGM in fair and transparent manner.
 - In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact them at 1800 200 5533.
- Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **6th September, 2019 to 12th September 2019** (both days inclusive) for the purpose of ensuring Annual General Meeting and facilitating payment of Dividend, if declared.
- By order of the Board,
For Hindcon Chemicals Limited
Sd/-
Jaya Baidya
Company Secretary
- Place: Kolkata
Date: 21st August, 2019

LANCER CONTAINER LINES LIMITED
Mayuresh Chambers Premises Co-Operative Society Ltd,
Unit No.H02-2, H02-3 & H02-4, Plot No.60, Sector-11,
CBD Belapur, Nav Mumbai - 400614 Tel. +91 22 27566940/41/42;
E-Mail id: **secretarial@lancermarine.in**; Web: **www.lancermarine.in**
CIN No. L74990MH2011PLC214448

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to applicable regulations of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on **Thursday, 29th August 2019, at 3.00 P.M.** at the registered office of the company, Mayuresh Chambers Premises Co-Operative Society Ltd, Unit No.H02-2, H02-3 & H02-4, Plot No.60, Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400614, inter alia, to consider and approve the Notice of 8th Annual General Meeting and matter related thereto and any other business matter, with permission of chair. This notice is also available on the website of the company **www.lancermarine.in** and also on the website of the stock exchange **www.bseindia.com**

For Lancer Container Lines Limited
Sd/-
Abdul Khalik Chataivai
Chairman & Managing Director
DIN: - 01942246

Place: Navi Mumbai
Date: 21st day of Aug, 2019

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR ATTENTION OF THE CREDITORS OF VENKATESH LOGISTICS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of corporate debtor	Venkatesh Logistics Private Limited
2. Date of incorporation of corporate debtor	11.11.2004
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Kolkata
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U60100WB2004PTC100396
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	12, Indira Exchange Place, Jute House, 13 th Floor Kolkata - 700001
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	19.08.2019
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	15.02.2020 (Being 180 days from Insolvency Commencement Date)
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Vinod Kumar Kohari Reg. No. : NI-IBVI/PA-002/IP-N00019 2016-17/10033
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Vinod Kumar Kohari Address: 1006-1009, Krishna Building, 224 A/C Bose Road, Kolkata-700017 resolution@vinodkohari.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Vinod Kumar Kohari Address: 1006-1009, Krishna Building, 224 A/C Bose Road, Kolkata-700017 E-mail: crp_vip@gmail.com
11. Last date for submission of claims	02.09.2019 (14 days from date of appointment of Interim Resolution Professional)
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	N.A.
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Venkatesh Logistics Private Limited on 19.08.2019.

The creditors of Venkatesh Logistics Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 02.09.2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 21.08.2019
Place: Kolkata
Sd/-
Vinod Kumar Kohari

ESTER INDUSTRIES LTD

CIN: L24111UR1985PLC015063

Registered Office: Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima- 262308, Distt Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Phone: (05943) 250153-57 Fax : (05943) 250158
Corporate Office: Plot No. 11, Block-A, Infocity-I, Sector-34, Gurgaon-122001, Haryana. Phone : (0124) 4572100, Fax: (0124) 4572199
Website: www.esterindustries.com. Email: investor@ester.in

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of Ester Industries Limited will be held at **10.30 AM on Monday, 16th September, 2019** at the Registered office of the Company at Sohan Nagar, P. O. Charubeta, Khatima-262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand to transact such business as set out in the Notice of AGM ("Notice"). Notice along with Annual Report for financial year 2018-19 have been sent through electronic mode to all the members whose email ids are registered with company/Depository Participants and physical copies of Notice of AGM along with the Annual Report have been sent to all other members at their registered address in permitted mode. The dispatch of Notice and Annual Report (both physical and electronic) was completed on 21st August, 2019.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Tuesday, 10th September, 2019 to Monday, 16th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its members holding shares either in physical or dematerialized form at the close of business hours on the cut-off date i.e. **Monday 9th September, 2019** the facility to exercise their vote electronically on the business as set out in the Notice through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the business may be transacted through such voting. The procedure and instructions for remote e-voting has been given under the Notice.

The members are informed that -

- The remote e-voting period will commence at **09.00 AM on 13th September, 2019 and ending at 5.00 PM on 15th September, 2019**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
 - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **Monday, 9th September, 2019**.
 - Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. **Monday, 9th September, 2019**, may obtain the User ID and password by following the same instruction for remote e-voting as mentioned in the Notice.
 - The members who cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting. Vote once cast by the members shall not be allowed to be changed subsequently.
 - The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the AGM.
 - A person, whose name is recorded in the Register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 9th September, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the AGM.
 - The Notice along with Annual Report are available at the Company's website viz **www.esterindustries.com** The Notice is also available on the website of CDSL viz **www.cdslindia.com**
 - In case of any grievances/queries connected with remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Marathon Futurex, A Wing, 25th Floor, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Ph.: 1800225533. Email id- **helpdesk.evoting@cdslindia.com**
- For Ester Industries Limited
Sd/-
Diwaker Dinesh
Head - Legal & Company Secretary
- Place: Gurgaon
Date: 21st August, 2019

PANTH INFINITY LIMITED
(Formerly known as Synergy Bizcon Limited)

CIN: L45201MP1993PLC007647
404, Navnet Plaza, 5/2, Old Palasia, Indore-452001, Madhya Pradesh
Tel: 0731 - 4202337, Mo: +91 7043999011
Email id: info@pantinfinity.com
Website: www.pantinfinity.com

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Clause 6 (a) of the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, the Company is in the process of making application for voluntary delisting of its equity shares from The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE).

Necessity and Object of delisting:
To save recurring expenditure on listing fee payable to the aforesaid Stock Exchange where the trading of Company's equity shares is either negligible or nil. Since Company's equity shares shall continue to be listed on "BSE Limited, Mumbai, the Stock Exchange which has nationwide trading terminals, delisting of equity shares from CSE will not adversely affect the investors.

The Equity Shares of the Company will continue to be listed on the BSE Limited, Mumbai.

For PANTH INFINITY LIMITED
Sd/-
SHWET KORADIVA
Chairman & Director
Place: Surat
Date: 21/08/2019
DIN: 03489658

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated July 9, 2019 filed with the stock exchanges, namely National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India, ("SEBI"), on July 16, 2019 (the "Letter of Offer" or "LOF").

5PAISA CAPITAL LIMITED

Spaisa Capital Limited (the "Company") was originally incorporated as a public limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 as "India Infoline Finance Holdings Limited" pursuant to a certificate of incorporation dated July 10, 2007 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("ROC"). Thereafter, our Company obtained the certificate for commencement of business on July 19, 2007 from the ROC. The name of our Company was subsequently changed to "IFIL Capital Limited" and a fresh certificate of incorporation dated November 6, 2007, consequent upon change of name, was issued by the ROC. Thereafter, the name of our Company was changed to "Spaisa Capital Limited", and a fresh certificate of incorporation, consequent upon change of name, was issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai (where the registered office of our Company was located), on August 12, 2015. For further details of the change in name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 104 of the Letter of Offer.

Registered and Corporate Office: IFIL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, B-23, MIDC, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane 400 604, Maharashtra, India; **Corporate Identification No.:** L67190MH2007PLC289249, **Tel.:** +91 22 4103 5000; **Fax:** +91 22 2580 6654
Contact Person: Roshan Dave, Company Secretary and Compliance Officer; **E-mail:** csteam@5paisa.com; **Website:** www.5paisa.com

ISSUE OF UP TO 12,739,022 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT A PRICE OF ₹ 80 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 70 PER EQUITY SHARE) ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR AN AMOUNT UP TO ₹ 1,019.12 MILLION ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SPAISA CAPITAL LIMITED IN THE RATIO OF ONE RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY ONE FULLY PAID-UP EQUITY SHARE (I.E. 1:1) HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MAY 29, 2019 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE OF EACH RIGHTS EQUITY SHARE IS 8 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 285 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of the Company wishes to thank all its members and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Tuesday, July 23, 2019 and closed on Tuesday, August 6, 2019. Out of a total of 2,522 Composite Application Forms ("CAFs") (including 1,162 ASBA applications) received, 12 CAFs were rejected on technical grounds. The total number of valid CAFs received were 2,510 for 1,40,20,926 Equity Shares, which is 110.06% of the total Issue size. The Basis of Allotment was approved by NSE, the designated Stock Exchange on August 19, 2019. Pursuant to the approval, the Rights Issue Committee of Board of Directors of the Company in their meeting held on August 20, 2019 allotted 1,27,38,646* Equity Shares. All the valid applications including Application Submitted by Blocked Amount ("ASBA") have been considered for allotment.

1. Information regarding total Applications received and allotted (including ASBA applications):

Category	No. of valid CAFs Received		Equity Shares Applied for		Equity Shares Allotted	
	Number	%	Number	Value (₹)	Number	Value (₹)
Eligible Equity Shareholders	2,465	97.74	1,31,08,115	104,86,68,017.00	93.48	1,18,40,137
Renounees	57	2.26	9,14,121	7,31,29,354.00	6.52	8,98,509
Total	2,522	100.00	1,40,22,236	112,17,97,371.00*	100.00	1,27,38,646*

* Excluding ₹ 2,699/- in regard to demand draft charges
* Out of the Total Issue Size of 1,27,39,022 Rights Equity Shares, the rights entitlement on 376 equity shares have been kept in abeyance.

2. The break-up of Applications (including ASBA applications) after technical rejections is given below:

Category	CAFs received	No. of Equity Shares applied for	No. of Equity Shares allotted under Rights Entitlement (A)	No. of additional Equity Shares allotted (B)	Total Shares allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	2,455	1,31,07,005	1,13,87,809	4,52,328	1,18,40,137
Renounees	55	9,13,921	8,98,509	-	8,98,509
Total	2,510	1,40,20,926	1,22,86,318	4,52,328	1,27,38,646*

* Out of the Total Issue Size of 1,27,39,022 Rights Equity Shares, the rights entitlement on 376 equity shares have been kept in abeyance.

The listing application filed by the Company has been approved by NSE & BSE vide their letters no. NSE/LIST/2/1666 dated August 21, 2019 and DCS/PREF/SV/IP-RT/238/2019-20 dated August 20, 2019. The refund instructions were given on August 20, 2019 and the dispatch of Allotment Advice cum ECS Intimation and physical certificates to the allottees, as applicable, has been completed on August 21, 2019. The dispatch of demand drafts has been completed on August 21, 2019. Credit of equity shares to the respective demat accounts of the shareholders in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on August 21, 2019. The Company has made application to the stock exchanges at NSE & BSE seeking permission for trading of 1,27,38,646 equity shares issued on Rights Basis. The trading is expected to commence on or about August 23, 2019.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES ISSUED PURSUANT TO THIS RIGHTS ISSUE SHALL HAVE THE SAME ISIN (I.E. INE618L01018) AS THE EXISTING LISTED EQUITY SHARES. INVESTORS ARE FURTHER ADVISED TO NOTE THAT THOUGH THESE EQUITY SHARES MAY GET CREDITED TO THEIR RESPECTIVE DEPOSITORY ACCOUNTS, THEY SHOULD TRADE IN SUCH EQUITY SHARES ONLY AFTER ASCERTAINING THAT TRADING APPROVALS HAVE BEEN ISSUED AND NOTIFIED BY NSE AND BSE. THIS INFORMATION WOULD ALSO BE POSTED ON THE WEBSITE OF THE STOCK EXCHANGES.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not in anyway be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" on Page 274 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" on Page 278 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" on Page 277 of the Letter of Offer.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
KEYNOTE Keynote Financial Services Limited (Formerly Keynote Corporate Services Limited) The Ruby, 9 th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West) Mumbai 400 028 Tel: +91 22 6826 6000-3; Fax: +91 22 6826 6088 E-mail: mbd@keynoteindia.net Website: www.keynoteindia.net Contact Person: Pooja Sanghvi/Akhil Mohod SEBI Registration No.: INM 000003606	LINKintime Link Intime India Private Limited C101, 24 th Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 Tel: +91 22 4918 6200 Fax: +91 22 4918 6195 E-mail: Spaisa.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Sumeet Deshpande SEBI Registration No.: INR 000004058	Roshan Dave Spaisa Capital Limited IFIL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, B-23, MIDC, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400 604 Tel: +91 22 4103 5000; Fax: +91 22 2580 6654 E-mail: csteam@5paisa.com Investors may contact the Registrar to the Issue or Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/post-issue related matters such as non-receipt of letter of allotment, credit of Rights Equity Shares or Refund orders and such other matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the CDSL, giving full details such as name, address of the applicant, folio number or demat account number, serial number of the CAF, number of Rights Equity Shares applied for, account blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCBS where the Application was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Place : Thane
Date : August 21, 2019

Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act, or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States of America or the territories or possessions thereof ("United States" or "U.S.") or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" as defined in Regulation S under the Securities Act ("Regulation S"), except in a transaction not subject to, or exempt from the registration requirements of the Securities Act. See "Selling Restrictions" and "Important Information for Investors - Eligibility And Transfer Restrictions" in the section titled "Other Regulatory and Statutory Disclosures" on page 278 of the Letter of Offer.

For SPAISA CAPITAL LIMITED
on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Roshan Dave
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

बारामूला मुठभेड़ में लश्कर का आतंकवादी मारा गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों के साथ बुधवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ में जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) शहीद हो गए। एक उपनिरीक्षक घायल हुआ है। पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई थी। उसके बाद से यह पहली मुठभेड़ हुई है। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, मंगलवार को शुरू हुई यह मुठभेड़ बुधवार सुबह तक चली। इसमें मारे गए आतंकवादी की पहचान बारामूला निवासी मोमिन गोजर की रूप में हुई है। गोजर लश्कर से जुड़ा हुआ था और विभिन्न आतंकवादी अपराधों में संलिप्त था। मुठभेड़ स्थल से कई हथियार और गोला-

पुंछ में पाक की गोलीबारी में युवक की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में 22 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई है। सैन्य प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता के मुताबिक, मंगलवार देर रात में डेस्क्रेटर के डब्राज गांव में एक मकान पर मोर्टार का एक गोला गिरा, जिसमें मोहम्मद अब्दुल करीम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे फौरन ही पास के एक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां

बारूद बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में जान गंवाने वाले एसपीओ की पहचान बिलाल अहमद के रूप में की गई है। मुठभेड़ में उप

उसे मृत घोषित कर दिया गया। मेंडर और कृष्णा घाटी सेक्टरों में मंगलवार को नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर से मोर्टार दागे गए और गोलीबारी की गई। इसमें थल सेना के सैनिक नाइक रवि रंजाम कुमार शहीद हो गए जबकि चार अन्य कर्मी घायल हो गए। पाकिस्तानी गोलाबारी में करीब आधा दर्जन मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की इस हरकत के चलते दोनों सेक्टरों में एहतियाती कदम उठाते हुए आसपास के स्कूलों को बंद करना पड़ा।

निरीक्षक अमरदीप परिहार घायल हो गए हैं, जिन्हें यहां के बादामी बाग स्थित सेना के 92 आधार अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

‘हम 44 साल पुराने मिग-21 उड़ा रहे हैं, इतनी पुरानी तो कोई कार भी नहीं चलाता’

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

भारतीय वायुसेना को अगले महीने लड़ाकू विमान रफाल की पहली खेप मिल जाएगी। 2022 तक कुल 36 रफाल विमानों को वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। आने वाले समय में 114 लड़ाकू विमान वायुसेना के पास होंगे, जिसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि वायुसेना को 44 साल पुराने मिग-21 विमानों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। एअरफोर्स ऑडिटरियम में एक सेमिनार के दौरान वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल वीएस धनोआ ने इस स्थिति पर तंज करते हुए कहा, ‘हम अब भी 44 साल पुराने मिग-21 उड़ा रहे हैं।’ इतनी पुरानी तो कोई कार भी नहीं चलाता। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों के रख-रखाव और मेहनत के कारण इन विमानों को

सेवा में बनाए रख पाना संभव हो पा रहा है। वायुसेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण को लेकर सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना

रक्षा मंत्री की मौजूदगी में धनोआ ने कहा

सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना का मिग 21 विमान चार दशक से ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी यह सेना की रीढ़ बना हुआ है। दुनिया में शायद ही कोई देश इतना पुराना लड़ाकू विमान उड़ाता है। हमारे पास इसका विकल्प भी नहीं है।

प्रमुख ने कहा कि वायुसेना का मिग 21 विमान चार दशक से ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी यह सेना की रीढ़ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शायद ही कोई देश इतना पुराना लड़ाकू विमान उड़ाता है। हमारे पास इसका विकल्प भी

नहीं है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वायुसेना पूरे दमखम के साथ इसके भरोसे न केवल सरहद की हिफाजत करती है, बल्कि दुश्मन की चुनौतियों का जवाब भी देती है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना एक पेशेवर वायुसेना है, बालाकोट हमले के बाद दुनिया ने हमारा लोहा माना है।

वायुसेना प्रमुख धनोआ ने कहा कि हम स्वदेशी तकनीक द्वारा पुराने हो चुके लड़ाकू उपकरणों को बदलने का इंतजार नहीं कर सकते, न ही हर रक्षा उपकरण को विदेश से आयात करना समझदारी होगी। हम अपने पुराने हो चुके हथियारों को स्वदेश निर्मित हथियारों से बदल रहे हैं। भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव पर उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना हमेशा से सतर्क रहती है। ऐसा नहीं है कि तनाव हुआ है तभी हम सतर्क हैं। वायु रक्षा प्रणाली को जिम्मेदारी हमारी है और हम सतर्क हैं।

देश भर में 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 अगस्त।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने बुधवार को ‘नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेल्थ एंड टीचर्स हॉल्टीरिटक एडवॉरसमेंट यानी निष्ठा’ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत देश भर के 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लॉग आउटकम में सुधार लाना है।

इस मौके पर निशंक ने कहा कि यह अपनी तरह का दुनिया का पहला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि ‘निष्ठा’ के माध्यम से शिक्षकों में गहन सोच के प्रति प्रेरित करना है। इसके माध्यम से शिक्षक विभिन्न तरह के कौशल सीख सकेंगे जो योग्यता आधारित शिक्षा, स्कूल सुरक्षा, शिक्षण में आईसीटी व एआइ, स्वास्थ्य, इको क्लब, यूथ क्लब, रसीड गार्डन आदि से संबंधित होंगे। मंत्री ने कहा कि शिक्षक हमारे देश के पावर हाउस हैं और उन्हें उच्च गुणवत्ता

को होना चाहिए। इस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय स्तर पर 120 से 150 और राज्य स्तर पर 33 हजार से अधिक प्रशिक्षक कार्य करेंगे। केंद्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं अकादमिक संस्थान (नीपा), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और कुछ गैर सरकारी संगठन जुड़े हैं। वहीं, राज्य स्तर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आदि जुड़े हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि सभी शिक्षकों को पांच दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्रमवार दिए जाने वाले इस प्रशिक्षण की शुरुआत बुधवार से ही हो गई है। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य छह महीने रखा गया है लेकिन इसमें इसे भी अधिक समय लग सकता है।

उत्तर प्रदेश : पहले विस्तार में 23 मंत्रियों ने ली शपथ

लखनऊ, 21 अगस्त (जनसत्ता)।

दो साल पांच महीने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में बुधवार को 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इन मंत्रियों के जरिए योगी ने उप चुनाव से पूर्व उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है।

योगी मंत्रिमंडल में छह को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। इनमें चार- महेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, सुरेश राणा- पहले राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर थे। इन चारों के काम का इनाम इन्हें कैबिनेट मंत्री बना कर दिया गया है। इनके अलावा कैबिनेट मंत्री के रूप में दो नए चेहरे, राम नरेश अग्निहोत्री और कमला रानी वरुण, को स्थान दिया गया

है। इसके अलावा छह राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

मंत्रिमंडल विस्तार में युवा चेहरों को खास तरजीह दी है। जातीय व क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा खयाल रखा गया है। पिछड़ों व दलितों को मंत्रिमंडल में सबसे अधिक हिस्सेदारी दी गई है। इनकी संख्या दस है। तीन क्षेत्रीय विधायक मंत्री बने हैं जबकि छह ब्राह्मणों को मंत्री बनाया गया है। जानकार इसे योगी की दूरदर्शी सोच के साथ ही संतुलित विस्तार मान रहे हैं।

ये बने कैबिनेट मंत्री : मुख्यमंत्री ने राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे चार मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रॉन्नत किया है। इनमें मुख्य रूप से ग्राम्य विकास

मंत्री डॉ महेंद्र सिंह, गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा, ग्रामीण अभिव्यंजन मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर के अलावा दो नए चेहरों राम नरेश अग्निहोत्री और कमला रानी वरुण को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर शपथ दिलाई गई।

ये बने राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार : स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों में सूचना मंत्री वाराणसी से डॉ नीलकण्ठ तिवारी, कपिल देव अग्रवाल, सतीश द्विवेदी, एमएलसी अशोक कटारिया, श्रीराम चौधन, वाराणसी उत्तर से रवींद्र जायसवाल शामिल हैं।

11 बने राज्यमंत्री : राज्यमंत्री बनने वालों में अनिल शर्मा, महेश गुप्ता, आनंद स्वरूप शुक्ला, विजय कश्यप, डॉ गिरिराज सिंह धर्मेश, लाखन सिंह राजपूत, नीलिमा कटिया, चौधरी उदयधन सिंह, चंद्रिका प्रसाद

उपाध्यय रमाशंकर सिंह पटेल और अजीत सिंह पाल। जब से मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद शुरू हुई, तमाम बड़े नामों पर कयास लगाए जाने लगे थे। संगठन से सरकार तक बड़े नामों की चर्चा थी, लेकिन योगी ने मंत्रिमंडल विस्तार में जिन्हें जगह दी उनके नामों से साफ हो गया कि काम को उन्होंने अधिक तरजीह दी है। इनमें रामनरेश अग्निहोत्री और कमलरानी वरुण का नाम चौकाने वाला है। ब्राह्मण परिवार से आने वाले रामनरेश अग्निहोत्री पहली बार विधायक बने हैं। उनकी विधायकी की खास बात यह है कि उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ और मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी की भांगवा सीट से चुनाव जीतकर बड़ा धमकाया था।

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली-

4था तल, जीवन वारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के तहत पंजीकृत तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों को वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना ऑ.ए. नं. 06/2019 के माहले में

भारतीय स्टेट बैंक	बनाम	आवेदक
श्री विपुल जैन एवं अन्य		प्रतिवादीगण
सेवा में, श्री-1. श्री विपुल जैन, पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार जैन, निवासी: ए-1105, अहिंसा खंड-2, इन्दियन, एंजल मकाने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, एम. नं. 9971118087, साबू शी: श्री विपुल जैन, पुत्र श्री सुरिन्दर कुमार जैन, एम. नं. 2639, भूपनपुरा, आईएस: मुल्तान हिण्ड गेट, अमृतसर, पंजाब-143001, साबू शी: श्री विपुल जैन, कर्मचारी सं. 80326753, एंजल सिटिमेंट-2, 247, उद्योग विहार, फेज-4, गुडगाँव, हरियाणा-122016.		
श्री-2. म. आइडिया बिल्डिंग प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय: सी-294, Iला तल, विवेक विहार, दिल्ली-110095, साबू शी: सी-10, गमरसरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011, साबू शी: खस्ता नं. 998, रेड एपल रेडीनेस्सी, केडीपी सैकिल के निकट, राष्ट्रीय राजमार्ग 58, राज नगर एस्टेट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201003, ईमेल आईडी: CONTACT@IDEABUILDERS.IN		

जैसा कि ऊपर उल्लिखित आवेदकों ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संवृष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 29.8.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हो। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा विनिर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगा।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर, आज, 27 मई, 2019 को दी गई।
अधिकरण के आदेश से सहसहक निम्नद्वारा
डीआईटी-III, नई दिल्ली

आस्था बैंक (भारत सरकार का उपकरण) 5ई/7, बी.पी. रेलवे रोड, एनआईटी फरीदाबाद-121001 फोन नं.0129-2420061

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) अचल संपत्ति के लिए

जैसा कि, वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आस्था बैंक के प्राधिकृत अधिकार के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नाम सूचना तिथि 16.04.2019 जारी कर ऋणधारक श्रीमती अल्का शर्मा, नवल किशोर शर्मा, नेहा शर्मा, नेहारिका प्रिंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और गारंटर- अल्का शर्मा, नवल किशोर शर्मा, नेहा शर्मा, कैलाश चंद्र शर्मा और श्याम सुंदर शर्मा को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 28,34,151/- (अड़सईस लाख चौत्तीस हजार एक सौ और इक्यावन मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 16 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। ऋणधारक का नाम प्रतिभूति परिस्थितियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारकों पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आधा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति से संबंधित सभी अंश और खंड
भूमि और भवन - आवासीय माप लगभग 1800 वर्ग फिट जो 2399/7, रेक्ट नं. 43, किला नं. 9,10,11 (खस्ता नं 43/9/10/11) फूल चंद किरणगा स्टोर के पास, जवाहर कॉलोनी, एनआईटी फरीदाबाद में स्थित जो अल्का शर्मा, नवल किशोर शर्मा, कैलाश चंद्र शर्मा और श्याम सुंदर शर्मा के स्वामित्व और अधीन में और चौदही पूर्व में : आनंद सिंह रावत का मकान, परिधम में : रास्ता, उत्तर में : गिराज का मकान, दक्षिण में : रास्ता

दिनांक: 16.08.2019
स्थान: फरीदाबाद

प्रपत्र 'जी' अधिनियम की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

(दिवाला और ऋण शोध अखतला (कापोरेंट व्यवस्था के लिए ऋण शोध अखतला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क (1) के अधीन) प्रासंगिक विवरण

1. कापोरेंट देनदार का नाम	अर्ब बिल्डप्राप प्राइवेट लिमिटेड
2. कापोरेंट देनदार के निगमन की तिथि	06 फरवरी 2013
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कापोरेंट देनदार नियमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज - दिल्ली
4. कापोरेंट देनदार की कापोरेंट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70102DL2013PTCC247953
5. कापोरेंट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	बी-100 ; द्वितीय तल ; नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया ; फेज-2 ; दिल्ली साउथ वेस्ट औएल 110028
6. कापोरेंट देनदार की ऋण शोध अखतला आरंभ की तिथि	13-05-2019
7. अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति के निमंत्रण की तारीख	17-08-2019
8. सौहार्दा की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राहता :	विस्तृत विवरण irp.earthbuildprop@gmail.com पर ई-मेल द्वारा मांगा जा सकता है
9. धारा 29क के अधीन अग्राहता के मानदंड :	आईबीबीआई की (www.ibbi.gov.in) वेबसाइट पर उपलब्ध है अथवा irp.earthbuildprop@gmail.com पर मांगा जा सकता है
10. अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	16 सितंबर 2019
11. समाहित समाधान आवेदकों की अनतिथि सूची जारी करने की तिथि	1 अक्टूबर 2019
12. अनतिथि सूची के बारे में आपत्तिका प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	6 अक्टूबर 2019
13. समाहित समाधान आवेदकों की अनतिथि सूची जारी करने की तिथि	13 अक्टूबर 2019
14. समाहित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	6 अक्टूबर 2019
15. समाधान योजना हेतु अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की तिथि	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना ज्ञापन हेतु अनुरोध रूपर चाईट 8 के अनुषंग ग्राहता मानदंडों की जांच तथा आईबीबी. 2016 की धारा 29(2) के तहत वनचक्र प्रस्तुत करने की शर्त पर ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे।
16. समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	26 अक्टूबर 2019
17. समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना प्रस्तुत करने की तिथि	समाधान योजना एक सौ बंद लिफाफे में आइटम नंबर 21 पर वर्णित पते पर प्रस्तुत किया जाएगा।
18. निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	11 नवंबर 2019
19. समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	राकेश कुमार गुप्ता, आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IP-P00833/2017-2018/11418
20. समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीकृत है	पत्राचार हेतु पता : पीएअरएम एक्सएअरएम, धारा 701, विक्रान्त टावर नंबर 4 ; राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 ई-मेल आईडी : rk.gdelhi.ca@gmail.com
21. पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	पत्राचार हेतु पता : राकेश कुमार गुप्ता निवासी 701, विक्रान्त टावर, नंबर 4 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 ; ई-मेल आईडी : irp.earthbuildprop@gmail.com
22. अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	अतिरिक्त सूचना समाधान प्रोफेशनल से ई-मेल आईडी irp.earthbuildprop@gmail.com के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है
23. प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	22 अगस्त 2019

राकेश कुमार गुप्ता
701, विक्रान्त टावर, नंबर 4 ; राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
ई-मेल आईडी : irp.earthbuildprop@gmail.com

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly or indirectly into the United States or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated July 9, 2019 filed with the stock exchanges, namely National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India, ("SEBI"), on July 16, 2019 (the "Letter of Offer" or "LOF").



5paisa Capital Limited (the "Company") was originally incorporated as a public limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 as "India Infoline Finance Holdings Limited" pursuant to a certificate of incorporation dated July 10, 2007 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("RoC"). Thereafter, our Company obtained the certificate for commencement of business on July 19, 2007 from the RoC. The name of our Company was subsequently changed to "IIFL Capital Limited" and a fresh certificate of incorporation dated November 6, 2007, consequent upon change of name, was issued by the RoC. Thereafter, the name of our Company was changed to "5paisa Capital Limited", and a fresh certificate of incorporation, consequent upon change of name, was issued by the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai (where the registered office of our Company was located), on August 12, 2015. For further details of the change in name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 104 of the Letter of Offer.

Registered and Corporate Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, B-23, MIDC, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane 400 604, Maharashtra, India; Corporate Identification No.: L67190MH2007PLC289249; Tel: +91 22 4103 5000; Fax: +91 22 2580 6654

ISSUE OF UP TO 12,739,022 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT A PRICE OF ₹ 80 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 70 PER EQUITY SHARE) ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR AN AMOUNT UP TO ₹ 1,019.12 MILLION ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF SPAISA CAPITAL LIMITED IN THE RATIO OF ONE RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY ONE FULLY PAID-UP EQUITY SHARE (I.E. 1:1) HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MAY 29, 2019 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE OF EACH RIGHTS EQUITY SHARE IS 8 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 285 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of the Company wishes to thank all its members and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Tuesday, July 23, 2019 and closed on Tuesday, August 6, 2019. Out of a total of 2,522 Composite Application Forms ("CAFs") (including 1,162 ASBA applications) received, 12 CAFs were rejected on technical grounds. The total number of valid CAFs received were 2,510 for 1,40,20,926 Equity Shares, which is 110.06% of the total Issue size. The Basis of Allotment was approved by NSE, the designated Stock Exchange on August 19, 2019. Pursuant to the approval, the Rights Issue Committee of Board of Directors of the Company in their meeting held on August 20, 2019 allotted 1,27,38,646* Equity Shares. All the valid applications including Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") have been considered for allotment.

Category	Equity Shares Applied for				Equity Shares Allotted			
	Number	%	Number	Value (₹)	Number	Value (₹)	%	
Eligible Equity Shareholders	2,465	97.74	1,31,08,115	104,86,68,017.00	93.48	1,18,40,137	94,72,08,587.00	92.95
Renounees	57	2.26	9,14,121	7,31,29,354.00	6.52	8,98,509	7,18,80,394.00	7.05
Total	2,522	100.00	1,40,20,926	112,17,97,371.00*	100.00	1,27,38,646*	101,90,88,981.00*	100.00

* Excluding ₹ 2,699/- in regard to demand draft charges
* Out of the Total Issue Size of 1,27,39,022 Rights Equity Shares, the rights entitlement on 376 equity shares have been kept in abeyance.

The break-up of Applications (including ASBA applications) after technical rejections is given below:

Category	CAFs received	No. of Equity Shares applied for	No. of Equity Shares allotted under Rights Entitlement (A)	No. of additional Equity Shares allotted (B)	Total Shares allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	2,455	1,31,07,005	1,13,87,809	4,52,328	1,18,40,137
Renounees	55	9,13,921	8,98,509	-	8,98,509
Total	2,510	1,40,20,926	1,22,86,318	4,52,328	1,27,38,646*

* Out of the Total Issue Size of 1,27,39,022 Rights Equity Shares, the rights entitlement on 376 equity shares have been kept in abeyance.

The listing application filed by the Company has been approved by NSE & BSE vide their letters no. NSE/LIST/7/1666 dated August 21, 2019 and DCS/PREF/SVIP-RT/238/2019-20, dated August 20, 2019. The refund instructions were given on August 20, 2019 and the dispatch of Allotment Advice cum ECS Intimation and physical certificates to the allottees, as applicable, has been completed on August 21, 2019. The dispatch of demand drafts has been completed on August 21, 2019. Credit of equity shares to the respective demat accounts of the shareholders in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on August 21, 2019. The Company has made application to the stock exchanges at NSE & BSE seeking permission for trading of 1,27,38,646 equity shares issued on Rights Basis. The trading is expected to commence on or about August 23, 2019.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES ISSUED PURSUANT TO THIS RIGHTS ISSUE SHALL HAVE THE SAME ISIN (I.E. INE618101018) AS THE EXISTING LISTED EQUITY SHARES. INVESTORS ARE FURTHER ADVISED TO NOTE THAT THOUGH THESE EQUITY SHARES MAY GET CREDITED TO THEIR RESPECTIVE DEPOSITORY ACCOUNTS, THEY SHOULD TRADE IN SUCH EQUITY SHARES ONLY AFTER ASCERTAINING THAT TRADING APPROVALS HAVE BEEN ISSUED AND NOTIFIED BY NSE AND BSE. THIS INFORMATION WOULD ALSO BE POSTED ON THE WEBSITE OF THE STOCK EXCHANGES.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not in anyway be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" on Page 274 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by

